

बालदिवस के उपलक्ष में कार्यक्रम

तारीख : २०-११-२०१६

बालदिवस के निमित्त ब्रह्माकुमारीज़ के घाटकोपर शाखा के द्वारा आयोजित बच्चों के लिए मूल्यशिक्षण कार्यक्रम के अंतर्गत मुंबई के 'बालकल्याण नगरी' और 'माझे माहेर' इन अनाथ आश्रम के 200 बच्चों ने भाग लिया. 'माझे माहेर' आश्रम के बच्चों ने सांस्कृतिक कार्यक्रम में हिस्सा लेकर अपनी अन्दर की कलाओं का प्रदर्शन किया. ब्रह्माकुमारी राजयोगीनी शकू दीदीजी ने अपने वक्तव्य में 'शिक्षाप्रद कहानियों द्वारा बच्चों को सच्चाई, हीम्मत, एकाग्रता के गुण सिखाये. ब्रह्माकुमारी राजयोगीनी विष्णु बहन ने सभी उपस्थितियों को प्रैक्टिकल मूविंग मेडिटेशन कराया. ब्रह्माकुमार राजयोगी निकुंज ने खेल खेल में 'ओम शांति ' का अर्थ समझाकर हम सभी का अतिप्रिय गुण 'शांति' में रहने का अभ्यास कराया. तपस्विनी राजयोगीनी नलिनी दीदीजी ब्रह्माकुमारीज़ घाटकोपर सबज़ोन ने बच्चों को आपस में फ्रेंड्स की जोड़ियाँ बनाकर बहुत ही रोमांचक तरीके से प्रैक्टिकल में एक दुसरे के गुणग्राहक कैसे बने, सदा सभी के लिए अच्छा सोचने की हम आदत कैसे डाले, एक दुसरे के अच्छे व सच्चे फ्रेंड कैसे बने ये शिक्षाये देते बच्चों के भविष्य के लिए शुभ कामनायें दी. अंत में सभी ने प्रभु के घर से सौगात, प्रसाद और ब्रह्मा भोजन स्वीकार किया. आये हुए बच्चों के केयरटेकर, 'माझे माहेर' आश्रम के ट्रस्टी डॉ. प्रमिला ज़रग, बाल कल्याण नगरी आश्रम के अभिषेक मिर्गल, निर्मला मैडम इन्होंने कार्यक्रम की सराहना करते हुए कहा की, आज के इस दूषित वातावरण में बच्चों के लिए ऐसे शिक्षाप्रद कार्यक्रम की अतिआवश्यक है. और आज आश्रम के सभी बच्चे आश्रम के बाहर इस ब्रह्माकुमारीज़ पीस पार्क में आकर अतिशय प्रफुलित हैं. हर्षित हैं. बच्चों के लिए आज का दिन जीवन का एक अविस्मरणीय दिन है, जब आ.नलिनी दीदीजी ने सभी बच्चों को ब्रह्माकुमारीज़ पीस पार्क के भगवान के आप सभी फूल हो इस प्रकार संबोधित किया तो एकदम सभी के रोमांच खड़े हुए.